



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1936 (श0)  
(सं0 पटना 931) पटना, शुक्रवार, 14 नवम्बर 2014

सं0 वन भूमि-26/2009—604(ई.) / प0व0  
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

13 नवम्बर 2014

राज्य सरकार के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29(1) के अंतर्गत वर्ष 1994 में राज्य के विभिन्न पथ तटों, नहर तटों के किनारे की 'सुरक्षित वन' अधिसूचित भूमि की उपरोक्त अधिनियम की उप-धारा (3) के आलोक में जाँच हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:—

i.	मुख्य सचिव, बिहार, पटना	अध्यक्ष
ii.	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
iii.	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
iv.	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
v.	सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
vi.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना	सदस्य

समिति उपरोक्त अधिसूचनाओं में वर्णित भूमि, वनक्षेत्र या बंजर भूमि है अथवा नहीं के संबंध में आवश्यक जांच कर अपना प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विवेक कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 931-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>